

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग

भूमिका और कार्य

सरकारी विदेशी सहायता से संबंधित कार्यकलाप आर्थिक कार्य विभाग में विभिन्न प्रभागों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सहायता लेखा और लेखा परीक्षा (एए एंड ए प्रभाग) इस कार्यकलाप के लिए आधारभूत कार्यालय सहायता प्रदान करता है। इसके कार्यों में करार पर हस्ताक्षर होने से लेकर इसकी अंतिम पुनःअदायगी तक के संपूर्ण जीवन चक्र का प्रशासन शामिल है। इसमें प्राप्तियों तथा पुनःअदायगी के लिए विदेशी सहायता से संबंधित बजट अनुमान तैयार करना शामिल है। सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग सभी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं से सरकारी ऋण से संबंधित व्यापक विदेशी ऋण डाटा बेस का रखरखाव करता है जिसमें सरकार द्वारा दी गई राज्यवत गारन्टी (पैरास्टेटल्स) द्वारा किए गए ऋण संविदा शामिल है।

इन्हें निम्नलिखित शी-नों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

संवितरण चक्र

- परक्राम्य सहायता करारों में वित्तीय प्रसंविदा से संबंधित सभी मामले।
- ऋण/अनुदान लेखा से निधियों का आहरण।
- संबंधित ऋण करारों के अनुसार उनकी पात्रता के अनुकूल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त दावों की संवीक्षा करना तथा संवितरण प्राप्त करने के लिए उसे दाता को प्रस्तुत करना।
- संबंधित राज्यों/उप रा-ट्रीय स्तरों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करना।

मानीटरिंग:

- मानीटरिंग को सुसाध्य बनाने के लिए तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्य सरकारों, संबंधित मंत्रालयों तथा अन्य मंत्रालयों तक सुविधा की पहुंच बनाने के लिए यह प्रभाग एक गतिशील वेबसाइट “aaad.gov.in” का रख-रखाव करता है। (ब्यौरे के लिए “साइटमैप” देखें)।
- उपयोग की तुलना में दाताओं की स्थिति की मासिक आंतरिक रिपोर्टिंग।
- बजटीय अनुमानों के संदर्भ में संवितरणों की स्थिति।

ऋण का प्रबंधन

- ऋण शोधन अदायगी का समयबद्ध निपटान

- प्रत्येक ऋण करार के अंतर्गत ऋण लेखा का रखरखाव
- इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों से वार्तालाप

सांख्यिकी सूचना का प्रस्तुतीकरण

- विदेशी सहायता पुस्तिका जिनमें बकाया ऋण; दातावार ऋण, करार-वार, क्षेत्रवार आदि के अनुसार ऋण/अनुदान लेखा से अनाहरित शेन राशि, के बारे में व्यापक सूचना होती है, वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है।
- वैश्विक विकास वित्त (जीडीएफ) में प्रकाशन के लिए विश्व बैंक को डाटा भेजना।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षित भंडारों तथा विदेशी मुद्रा नकदी से संबंधित ढांचे के लिए डाटा।
- विशेष डाटा प्रसारण स्तरों (एसडीडीएस) की रिपोर्टिंग।

अन्य क्रियाकलाप

- यह प्रभाग विदेश व्यापार महानिदेशालय के तहत 37 लाइसेंस कार्यालयों द्वारा पंजीकृत निर्यातकों को निर्यात संवर्धन के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों की लेखा परीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी है।

एएएडी की खास विशेषताएं

- आईएसओ प्रमाणन
वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यालय ने कार्यकुशलता और उत्पाद को इ-टतम बनाने हेतु आईएसओ बैंच-मार्किंग मानदंडों को अपनाकर "विदेशी सहायता का संवितरण, लेखांकन और ऋण शोधन" पर आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणन प्राप्त किया है। यह कार्यालय देश के ऐसे बहुत ही कम लेखा कार्यालयों में से है जिसके पास आईएसओ मानक हैं।
- दावों का ई-प्रस्तुतीकरण
जहां तक संभव है, संवितरण संबंधी दावे परियोजनाओं से इलैक्ट्रॉनिक तरीके से स्वीकार किए जाते हैं। इसके अलावा, पहली बार उपाय के रूप में और विशेष रूप से नई परियोजनाओं के लिए, विश्व बैंक ग्राहक संबंध के माध्यम से विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए दावों को इलैक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। निकट भविष्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा।

* * * * *